

प्रेस विज्ञप्ति :-



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



थाना रामगढ पुलिस द्वारा 12 वर्षीय अपहृत को 12 घंटे के अन्दर सकुशल बरामद कर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण करने के सम्बन्ध में

आज दिनांक 06.11.2021 को रात्रि 00.10 बजे वादी श्री रियाजुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन निवासी नूर नगर कश्मीरी गेट थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद द्वारा सूचना अंकित करायी कि उसके पुत्र रिहान उम्र 12 वर्ष का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के रूप में ढाई लाख रुपये की मांग की जा रही है सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुये मु0अ0सं0 588/21 धारा 364 ए भादवि पंजीकृत किया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रामगढ पुलिस, सर्विलांस टीम एवं एसओजी टीम को अपहृत की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशन के अनुपालन में पुलिस टीमों द्वारा वादी, गवाहान, स्वतन्त्र गवाहान एवं मौहल्ले के लोगो से गहनता से पूछताछ की और मुखबिरान को मामूर किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि वादी रियाजुद्दीन जुआ खेलने का आदी है जिसपर कर्जा हो गया था और कर्जा वाले पैसे वापस करने के लिये दबाव बना रहे थे इसलिये उसने अपने साथी समीर उर्फ चुरी पुत्र शब्बीर निवासी हसमत नगर थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद के साथ मिलकर अपहरण की झूठी कहानी बनाकर बच्चे को छुड़ाने के एवज में रुपये देने की बात बता देंगे तो कोई भी कर्ज देने वाले पैसे वापस करने का दबाव नहीं बनायेगा और अगर बनायेगा तो उसका झूठा नाम मुकदमा में ले देंगे। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर गठित टीमों द्वारा अपहृत के पिता अभियुक्त रियाजुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर सह अभियुक्त समीर उर्फ चुरी के मकान से अपहृत रिहान को सकुशल बरामद कर लिया। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग धारा 364ए भादवि से धारा 177/181/182/195/120बी/420भादवि में तरमीम कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान व दिनांक

अभियुक्त समीर उर्फ चुरी का मकान हसमत नगर थाना रामगढ जिला फिरो0 दिनांक 06.11.2021

अपहृत का नाम पता

रिहान पुत्र श्री रियाजुद्दीन निवासी नूर नगर कश्मीरी गेट थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद उम्र 12 वर्ष

अभियुक्तगण का नाम पता

1. श्री रियाजुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन निवासी नूर नगर कश्मीरी गेट थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद
2. समीर उर्फ चुरी पुत्र शब्बीर निवासी हसमत नगर थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद

अपहृत रिहान को बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. एसओ हरवेन्द्र मिश्रा थाना रामगढ फिरोजाबाद
2. व0उ0नि0 सामून अली थाना रामगढ फिरोजाबाद
3. उ0नि0 अजय कुमार स्वाट टीम प्रभारी
4. है0का0 राजकुमार, 5. आरक्षी योगेन्द्र, 6. आरक्षी अनुरुद्ध

सर्विलांस टीम:-

1. आरक्षी प्रवीन कुमार, 2. आरक्षी देवेन्द्र कुमार, 3. आरक्षी अनिल कुमार

एसओजी टीम

1. आरक्षी मानवेन्द्र, 2. आरक्षी योगेश, 3. आरक्षी दिलीप, 4. आरक्षी रमाकान्त